

Ref: HTML/CS/02/2022

February 23, 2022

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C/1, G Block
Bandra Kurla Complex
Bandra (E) Mumbai – 400051

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai- 400 001

Symbol: HTMEDIA

Scrip Code: 532662

Dear Sir/ Madam,

Sub: Copy of Newspaper advertisement for notice of the meeting of the Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of HT Media Limited (“Company”) to be convened as per the directions of the Hon’ble National Company Law Tribunal, New Delhi Bench (‘NCLT’)

Ref: In the matter of Composite Scheme of Amalgamation (“Scheme”) between Digicontent Limited, Next Mediaworks Limited, HT Mobile Solutions Limited with HT Media Limited and their respective shareholders and creditors.

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the newspaper advertisement published today i.e., February 23, 2022 in **MINT (English Language – All Edition)** and **HINDUSTAN (Hindi Language – All Edition)**, regarding notice of the following meeting(s) of the Company

Sl. No.	Class of meeting	Day, date & time of meeting
1	Unsecured Creditors	Monday, March 28, 2022 at 10:00 A.M. (IST)
2	Secured Creditors	Monday, March 28, 2022 at 3:00 P.M. (IST)
3	Equity Shareholders	Tuesday, March 29, 2022 at 3:00 P.M. (IST)

scheduled to be held through video conferencing or other audio visual means ("VC/ OAVM"), pursuant to Order of the NCLT dated February 03, 2022 read with Order dated December 22, 2021 for the purpose of considering, and if thought fit, approving, Composite Scheme of Amalgamation (“Scheme”) between Digicontent Limited, Next Mediaworks Limited, HT Mobile Solutions Limited with HT Media Limited and their respective shareholders and creditors under the provisions of Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013 and the other applicable provisions thereof and rules thereunder.

The above is for your information and record.

Thanking You

Yours truly,

For **HT MEDIA LIMITED**

(Dinesh Mittal)

Group General Counsel & Company Secretary

Encl: As above



Travel cos eye summer of revival in int'l tours

Europe, in particular, is seeing high demand, says Thomas Cook India

Varuni Khosla
varuni.k@livemint.com
NEW DELHI

With countries easing border restrictions and India set to resume scheduled international flights from 15 March, travel companies expect a rush this summer. According to Thomas Cook India, travel operators have witnessed a fourfold rise in the number of queries in the past 15 days.



Thomas Cook said the US is popular for valid visa holders, while Dubai, Abu Dhabi, the Maldives and Sri Lanka are well-liked for special occasions and weekend getaways.

Customers have started planning their summer holidays, with Europe, in particular, seeing high demand, the company said.

Rajiv Kale, president and country head, holidays, meetings, incentives, conferences and exhibitions (MICE), visa, Thomas Cook (India), said there are clear signs of a revival with international queries seeing an impressive uptick. "Positive sentiment with the reopening of borders is resulting in a considerable upswing in business from our corporate and MICE sectors," he said.

"Sporting events are of particular value to this sector with growing interest for Formula 1 in Bahrain, the FIFA World Cup in Qatar, and the T20 cricket tournament in Australia. The impending announcement on restarting international commercial aviation will further boost demand and help the sector in early revival," he added.

Thomas Cook said the US is popular for valid visa holders, while Dubai, Abu Dhabi, the Maldives and Sri Lanka are well-liked for special occasions and weekend getaways.

Besides, Australia is back on the radar with borders reopening from 22 February, while Turkey, Mauritius and Egypt are also among popular choices, it added.

Travel and holiday firm Sterling Holidays expects this year to be a mixed bag for both short trips and long vacations. The industry did not have a good April-June season for two consecutive years. However,

that is likely to change this year, it said.

"Interest in international travel will continue. This will probably go up considering easing travel restrictions across countries. But we are confident that at least one domestic holiday will remain as a preference among most travellers this year," said

and had booked their tickets and travel, while 18% said they intended to travel but had not booked yet. Furthermore, nearly 29% said they wanted to travel but would decide closer to the travel date, while 29% had no plans for the next three months. LocalCircles interviewed 10,127 people.

Luxury Escapes, a travel operator, said destinations, such as Sri Lanka and Thailand, which were missing for the past two years, are back in the reckoning, accounting for 10% of their bookings. The UAE continues to draw interest even during summer months, as does the Maldives.

For domestic travel, Luxury Escapes is getting bookings with a lead time of 40-60 days, coinciding with the summer holidays period, for destinations like Shimla and Uttarakhand. "The summer of 2022 is expected to be stronger than the past two years," said Arun Ashok, regional head, India and the Middle-East, Luxury Escapes.

Vikram Lalvani, chief operating officer, resort operations and customer experience management, Sterling Holidays.

According to a study by community social media platform LocalCircles, 59% of the survey participants planned to travel during March-May. With covid-19 cases on a decline, 12% of the respondents said they were planning to travel in the next 90 days

WANDERLUST RISING

POSITIVE sentiment with the reopening of borders has raised corporate and MICE sector business

SPORTING events such as Formula 1 in Bahrain, the FIFA World Cup in Qatar, are drawing interest

A LocalCircles study found that 59% of the survey participants planned to travel during March-May

A brew of insightful perspectives. To start the day right.



Mint Top of the Morning Newsletter

- The top business, economic and political news of the day
- Delivered to your inbox every morning



Log on to <https://www.livemint.com/newsletters> to subscribe to the newsletter or scan the code.

*Source: Comscore, September 2021
Download the Mint app now.



Lata Jha
lata.j@livemint.com
NEW DELHI

India's over-the-top (OTT) video streaming market may record a compounded annual growth rate (CAGR) of more than 20% to touch \$13 billion-\$15 billion over the next decade, riding on original content and pricing innovations, a new report said. Paid subscribers are also estimated to expand at a CAGR of 17% to reach 224 million by 2026 from the current 102 million, according to *All About Screens*, a report by multinational professional services network Deloitte.

The growth in the OTT industry, which makes up 7.9% of its entertainment industry, will also be driven by low data costs, and the rise of short-form content, the report says. OTT platforms invested an esti-

By 2026, India to have 1 bn smartphone users

Shouvik Das
shouvik.das@livemint.com
NEW DELHI

Increased adoption in rural markets is set to take India's smartphone user base to one billion by 2026, according to a global predictions report by

Deloitte. Smartphone demand in rural markets will rise at a compound annual growth rate (CAGR) of 6% till 2026, compared with a 2.5% CAGR for urban circles, according to its 2022 Global TMT (Technology, Media and Entertainment, Telecom) predictions.

estimated \$665 million in content in 2021, with Netflix, Amazon Prime Video, and Disney+ Hotstar leading the pack with a combined spend of \$380 million.

The share of regional language consumption on OTT

platforms is expected to cross 50% by 2025 from 30% held in 2019, easing past Hindi at 45%, the report said. India's video streaming industry is highly fragmented, with more than 40 operators. Global streaming service providers (such as Ama-

zon, Disney-owned Hotstar, SonyLiv, and Netflix) compete with domestic service providers (such as Zee5, Voot, and MX Player), as well as a host of regional and ultra-localized players. Demand for OTT streaming content based on geo-demography is on the rise, both within India and internationally from the considerable Indian diaspora. The country is witnessing a boom in regional content and platforms created to address this demand.

The report said that in the early stages, India's OTT market was dominated by pricing structures suited to advertising-led video-on-demand services to maximize consumer acquisition. However, it said a subscription-led video-on-demand model will emerge stronger in future, with paid subscribers in India estimated to increase at a CAGR of 17%.

DIGICONTENT LIMITED
Corporate Identification Number: L74999DL2017PLC322147
Registered Office: Hindustan Times House, 2nd floor 18-20 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi - 110001; Ph: +91-11-6556 1234
Email: investor@digicontent.co.in Website: www.digicontent.co.in

**BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL
NEW DELHI BENCH**
(COMPANY APPLICATION NO.: CA(CAA)/112/230/232/ND/2021)

In the matter of Composite Scheme of Amalgamation between Digicontent Limited ("Transferor Company 1"), Next Mediaworks Limited ("Transferor Company 2") and HT Mobile Solutions Limited ("Transferor Company 3") with HT Media Limited ("Transferee Company") and their respective shareholders and creditors under Sections 230-232 of the Companies Act, 2013 read with rules made there under.

Digicontent Limited, a public listed company incorporated under the provisions of the Companies Act, 2013 on 14th August 2017 bearing corporate identification number of L74999DL2017PLC322147 having its registered office at Hindustan Times House, 2nd floor, 18-20 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi - 110001.

Applicant Company 1/ Transferor Company 1/ Company ADVERTISEMENT OF NOTICE OF THE MEETING OF EQUITY SHAREHOLDERS OF DIGICONTENT LIMITED

NOTICE is hereby given that by an order dated February 03, 2022 read with order dated December 22, 2021 ("Orders"), the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi Bench ("Tribunal" or "NCLT") has directed to convene a meeting of the equity shareholders of the Company to be held, for the purpose of considering, and if thought fit, the Composite Scheme of Amalgamation ("Scheme") of Digicontent Limited ("Transferor Company 1") or "Applicant Company 1", Next Mediaworks Limited ("Transferor Company 2") and HT Mobile Solutions Limited ("Transferor Company 3") (hereinafter collectively referred to as "Transferor Companies") with HT Media Limited ("Transferee Company") and their respective shareholders and creditors under the provisions of Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013 and the other applicable provisions thereof and applicable rules thereunder.

In pursuance of the aforesaid Order and as directed therein, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and circulars issued thereunder, as amended from time to time, and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR"), further notice is hereby given that a meeting of equity shareholders of the Company will be held on March 29, 2022 at 10:00 a.m. (IST) through video conferencing/ other audio-visual means ("VC/OAVM"), using facility offered by KFin Technologies Private Limited ("KFin"), Registrar and Share Transfer Agent of the Applicant Company 1, so as to enable the equity shareholders to cast their votes on the resolution i.e. by remote electronic voting ("Remote e-voting") and e-voting during the meeting ("InstaPoll"), proposed to be passed at the meeting, at which day and time the said equity shareholders of the Company are requested to attend. The detailed instructions for joining the meeting through VC/OAVM, manner of casting vote through remote e-voting prior to the meeting or through e-voting during the meeting, are given in the notes to the notice of the meeting.

The notice, together with the documents accompanying the same, of the meeting has been sent on February 22, 2022 to the equity shareholders whose names appear in the register of members/ list of beneficial owners maintained by the Depositories as on February 11, 2022 (i) through electronic mode to the equity shareholders whose e-mail IDs are registered with KFin/depositories and (ii) through registered post or courier to the equity shareholders whose e-mail IDs are not registered with KFin/Depositories.

Notice of the meeting, copy of Scheme along with the explanatory statement under Sections 230 and 232 read with Section 102 and other applicable provisions of the Act and Rule 6 of the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 can also be accessed/downloaded from the Company's website www.digicontent.co.in and from the website of KFin www.kfintech.com and websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. These documents can also be obtained free of charge on all working days, from the registered office of the Company between 10:00 a.m. to 4:00 p.m. or by emailing the aforesaid Applicant Company 1 at investor@digicontent.co.in, up to the date of the Meeting.

The cut-off date for e-voting (including remote e-voting) and time period for the remote e-voting of the aforesaid meeting is as under:

Cut-off date	Tuesday, March 22, 2022
Remote e-voting start date and time	Friday, March 25, 2022 at 09:00 a.m. (IST)
Remote e-voting end date and time	Monday, March 28, 2022 at 05:00 p.m. (IST)

The facility for casting vote by remote e-voting would be disabled after the end time, as mentioned above, for the meeting.

Members who opt for remote e-voting will only be entitled to attend and participate in the meeting but will not be entitled to vote again during the meeting.

Members, who have not registered their e-mail address, are requested to register the same, in respect of shares held in demat form with their Depository Participant(s), and in respect of shares held in physical form by clicking on <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobilemailreg.aspx> or by writing to KFin with details of folio number and self-attested copy of PAN card at KFin Technologies Private Limited, Unit: Digicontent Limited, Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda Serilingampally Mandal, Hyderabad-500 032 or by sending e-mail to el@ward.ris@kfintech.com.

An equity shareholder, whose name is recorded in the register of members/ list of beneficial owners maintained by the Depositories as on the above Cut-Off date, shall only be entitled to avail the facility of e-voting and attend the meeting of the equity shareholders. The voting rights of equity shareholders shall be in proportion to their holding in the paid-up share capital of the Company as on Cut-Off date.

In case a person has become shareholder of the Company after dispatch of the Notice but on or before the Cut-off date i.e. March 22, 2022, or has registered the e-mail address after dispatch of the Notice, such Member may obtain the User ID and password in the manner outlined in the Notice of the meeting.

Since the meeting will be held through VC/OAVM, the facility for appointment of proxies will not be available for the meeting. However, institutional/corporate shareholders etc. are entitled to appoint their authorized representatives for the purpose of voting through remote e-voting, for participation in the meeting.

The Hon'ble Tribunal has appointed Satwinder Singh (the undersigned), Advocate and Mr. N.C. Khanna (FCS No. 4268, CP No. 5143), Practising Company Secretary, as the Chairperson and Alternate Chairperson respectively of the meeting, including for any adjournment(s) thereof. Further, the Tribunal has appointed Mr. Manish Gupta, Practising Company Secretary (FCS No. 5123, CP No. 4095) to be the Scrutinizer for the meeting, including for any adjournment(s) thereof.

The results of the meeting shall be announced by the Chairperson of the meeting, within two (2) working days of the conclusion of the meeting upon receipt of Scrutinizer's report and the same shall be displayed on the website of the Company at www.digicontent.co.in and on the website of KFin www.kfintech.com, besides being communicated to stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

In case of any queries/grievances with respect to e-voting, equity shareholders may refer to the Help & FAQs section/e-voting user manual available at the "Downloads" section at <https://evoting.kfintech.com> or contact Mr. Rajkumar Kale, Asstt. General Manager, KFin Technologies Private Limited, Unit: Digicontent Limited, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500032 | Phone No.: +91-040-67162222 / 040-67162222 | Toll-free No.: 1800-309-4001 | E-mail: evoting@kfintech.com.

Sd/-
Satwinder Singh
Advocate
Chairperson appointed for the meeting

Date: February 22, 2022
Place: New Delhi

HT MEDIA LIMITED
Corporate Identification Number: L22121DL2002PLC117874
Registered Office: 18-20 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi - 110001
Ph: +91-11-6556 1234; Email: investor@hindustantimes.com Website: www.htmedia.in

**BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL
NEW DELHI BENCH**
(COMPANY APPLICATION NO.: CA(CAA)/112/230/232/ND/2021)

In the matter of Composite Scheme of Amalgamation between Digicontent Limited ("Transferor Company 1"), Next Mediaworks Limited ("Transferor Company 2") and HT Mobile Solutions Limited ("Transferor Company 3") with HT Media Limited ("Transferee Company") and their respective shareholders and creditors under Sections 230-232 of the Companies Act, 2013 read with rules made there under.

HT Media Limited, a public listed company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 on 3rd December 2002 bearing corporate identification number of L22121DL2002PLC117874 having its registered office at 18-20 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi - 110001.

Applicant Company 3/ Transferee Company/ Company ADVERTISEMENT OF NOTICE OF THE MEETINGS OF EQUITY SHAREHOLDERS, SECURED CREDITORS AND UNSECURED CREDITORS OF HT MEDIA LIMITED

NOTICE is hereby given that by an order dated February 03, 2022 read with order dated December 22, 2021 ("Orders"), the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi Bench ("Tribunal" or "NCLT") has directed to convene separate meeting of the equity shareholders, secured creditors and unsecured creditors of the Company to be held, for the purpose of considering, and if thought fit, the Composite Scheme of Amalgamation ("Scheme") of Digicontent Limited ("Transferor Company 1"), Next Mediaworks Limited ("Transferor Company 2") and HT Mobile Solutions Limited ("Transferor Company 3") (hereinafter collectively referred to as "Transferor Companies") with HT Media Limited ("Transferee Company") or "Applicant Company 3") and their respective shareholders and creditors under the provisions of Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013 and the other applicable provisions thereof and applicable rules thereunder.

In pursuance of the aforesaid Order and as directed therein, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and circulars issued thereunder, as amended from time to time, and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR"), further notice is hereby given that separate meeting of equity shareholders, secured and unsecured creditors of the Company will be held through video conferencing/ other audio-visual means ("VC/OAVM"), as per the schedule mentioned below, at which day and time the said equity shareholders, secured and unsecured creditors of the Company are requested to attend:

S. No.	Class of Meeting	Time(IST)	Date of Meeting
1.	Unsecured Creditors	10:00 a.m.	March 28, 2022
2.	Secured Creditors	3:00 p.m.	
3.	Equity Shareholders	3:00 p.m.	March 29, 2022

The Company has provided facility of voting by remote electronic voting ("Remote e-voting") and e-voting during the aforesaid meetings ("Insta Poll") using facility offered by KFin Technologies Private Limited ("KFin"), Registrar and Share Transfer Agent of the Applicant Company 3, so as to enable the equity shareholders, secured creditors and unsecured creditors to cast their votes on the resolution, proposed to be passed at their respective meetings. The detailed instructions for joining the meetings through VC/OAVM, manner of casting vote through remote e-voting prior to the meetings or through e-voting during the meetings, are given in the notes to the notices of the meetings.

The notice, together with the documents accompanying the same, of the aforesaid meetings has been sent on as mentioned below:

a. to the equity shareholders on February 22, 2022, whose names appear in the register of members/list of beneficial owners maintained by the Depositories as on February 11, 2022

(i) through electronic mode to the equity shareholders whose e-mail IDs are registered with KFin/depositories; and

(ii) through registered post or courier to the equity shareholders whose e-mail IDs are not registered with KFin/Depositories.

b. to the secured creditors and unsecured creditors on February 22, 2022, whose name appears in the records of the Company as on March 31, 2021

(i) through electronic mode to those secured creditors and unsecured creditors whose e-mail IDs are registered with the Company; and

(ii) through registered post or courier, physically, to those secured creditors and unsecured creditors who have not registered their email IDs with Company.

Notices of the meetings, copy of Scheme along with the explanatory statement under Sections 230 and 232 read with Section 102 and other applicable provisions of the Act and Rule 6 of the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 can also be accessed/downloaded from the Company's website www.htmedia.in and from the website of KFin www.kfintech.com and websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. These documents can also be obtained free of charge on all working days, from the registered office of the Company between 10:00 a.m. to 4:00 p.m. or by emailing the aforesaid Applicant Company 3 at investor@hindustantimes.com, up to the date of the meetings.

The cut-off date for e-voting (including remote e-voting) and time period for the remote e-voting of the aforesaid meetings is as under:

Particulars	Equity Shareholders meeting	Secured Creditors and Unsecured Creditors meeting
Cut-off date	Tuesday, March 22, 2022	Wednesday, March 31, 2021
Remote e-voting start date and time	Friday, March 25, 2022, at 09:00 a.m. (IST)	Thursday, March 24, 2022, at 09:00 a.m. (IST)
Remote e-voting end date and time	Monday, March 28, 2022, at 05:00 p.m. (IST)	Sunday, March 27, 2022, at 05:00 p.m. (IST)

The facility for casting vote by remote e-voting would be disabled after the end time, as mentioned above, for the meetings.

Members / Creditors who opt for remote e-voting will only be entitled to attend and participate in the meetings but will not be entitled to vote again during the meetings.

Members, who have not registered their e-mail address, are requested to register the same, in respect of shares held in demat form with their Depository Participant(s), and in respect of shares held in physical form by clicking on <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobilemailreg.aspx> or by writing to KFin with details of folio number and self-attested copy of PAN card at KFin Technologies Private Limited, Unit: HT Media Limited, Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda Serilingampally Mandal, Hyderabad-500 032 or by sending e-mail to el@ward.ris@kfintech.com.

Secured creditors and Unsecured creditors whose e-mail IDs are not available in the records of the Company may follow the process for procuring User IDs and Password and registration of e-mail IDs for e-voting as provided in the Notes to notice of the meetings.

An equity shareholder, whose name is recorded in the register of members/ list of beneficial owners maintained by the Depositories as on the above Cut-Off date, shall only be entitled to avail the facility of e-voting and attend the meeting of the equity shareholders. The voting rights of equity shareholders shall be in proportion to their holding in the paid-up share capital of the Company as on Cut-Off date.

Secured and Unsecured Creditors, whose names are recorded in the records of the Company as on the above Cut-Off date, shall only be entitled to avail the facility of e-voting and attend the meeting of the Secured and Unsecured Creditors respectively. The voting rights of secured creditors and unsecured creditors shall be in proportion to value of debts recorded in the books of the Company as on Cut-Off date.

In case a person has become shareholder of the Company after dispatch of the Notice but on or before the Cut-off date i.e. March 22, 2022, or has registered the e-mail address after dispatch of the Notice, such Member may obtain the User ID and password in the manner outlined in the Notice of the meetings.

Since the meetings will be held through VC/OAVM, the facility for appointment of proxies will not be available for the meetings. However, institutional/corporate shareholders and creditors etc. are entitled to appoint their authorized representatives for the purpose of voting through remote e-voting, for participation in the meetings.

The Hon'ble Tribunal has appointed Satwinder Singh (the undersigned), Advocate and Mr. N.C. Khanna (FCS No. 4268, CP No. 5143), Practising Company Secretary, as the Chairperson and Alternate Chairperson respectively of the meeting, including for any adjournment(s) thereof. Further, the Tribunal has appointed Mr. Manish Gupta, Practising Company Secretary (FCS No. 5123, CP No. 4095) to be the Scrutinizer for the meetings, including for any adjournment(s) thereof.

The results of the meetings shall be announced by the Chairperson of the meetings, within two (2) working days of the conclusion of the meetings upon receipt of Scrutinizer's report and the same shall be displayed on the website of the Company at www.htmedia.in and on the website of KFin www.kfintech.com, besides being communicated to stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

In case of any queries/grievances with respect to e-voting, equity shareholders may refer to the Help & FAQs section/e-voting user manual available at the "Downloads" section at <https://evoting.kfintech.com> or contact Mr. Rajkumar Kale, Asstt. General Manager, KFin Technologies Private Limited, Unit: HT Media Limited, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500032 | Phone No.: +91-040-67162222 / 040-67162222 | Toll-free No.: 1800-309-4001 | E-mail: evoting@kfintech.com.

Sd/-
Satwinder Singh
Advocate
Chairperson appointed for the meeting of equity shareholders, secured creditors and unsecured creditors

Date: February 22, 2022
Place: New Delhi

WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION COMPANY LIMITED
(A Govt. of West Bengal Enterprise)
Regd. Office : Vidyal Bhavan, Block-DJ, Sector-II, Bidhanagar, Kolkata-700 091
CIN : U40109WB2007SCC113473, cecorp@wbsecl.in, www.wbsecl.in

WBSECL

NIT No.: WBSECL/SPGD/Revamping Works/Mejia/NIT-34 Date: 18.02.2022

Tenders are invited by the Chief Engineer, SPGD, WBSECL, 3rd Floor, Data Centre Complex, Street No. 41, Action Area-1, New Town, Kolkata - 700163 through electronic tendering (e-tendering) from the EPC Contractors for 'Detailed Field Survey, Investigation & Identification of Balance Work, Dismantling & Stacking of damaged materials/equipment in safe place, Replacement Work with new materials/equipment, Revamping Work and Re-commissioning work on Turnkey basis for restoration of full generation capacity of the plant along with entrusting five-year comprehensive Operation & Maintenance works for the existing 10 MWs Ground Mounted Solar PV Plants of WBSECL at Mejia of Bankura District in the state of West Bengal. Total Estimated Cost: Rs. 40,86,16,312/- (Cost excluding GST). EMD: Rs. 81,72,000/- Last date of submission of bid (online): 21.03.2022 up to 16:00 hrs. Pre-Bid Meeting: 28.02.2022 at 15:00 hrs. Tenders are to be submitted online through <https://wbstenders.gov.in>. Further details may be had from www.wbsecl.in and the above-mentioned office or through e-mail ID solarwbsecl2018@gmail.com.

Sd/-
Satwinder Singh
Advocate
Chairperson appointed for the meeting of equity shareholders, secured creditors and unsecured creditors

Date: February 22, 2022
Place: New Delhi

रूसी वर्ष में सिर्फ 7700 डॉलर की क्रिप्टोकॉरसी खरीद सकेंगे

योजना

नई दिल्ली | एजेंसी

रूस ने क्रिप्टोकॉरसी या डिजिटल कॉरसी को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। रूस के वित्त मंत्रालय ने क्रिप्टोकॉरसी के नियमन से जुड़ा ड्राफ्ट जमा कर दिया है।

ड्राफ्ट के मुताबिक क्रिप्टोकॉरसी को केवल निवेश इंस्ट्रूमेंट के तौर पर मंजूरी दी जाएगी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ड्राफ्ट में डिजिटल कॉरसी के लिए कानूनी बाजार बनाने, डिजिटल कॉरसी के सफूलेेशन के लिए नियम बनाने और भागीदारों की सीमा तय करने का प्रस्ताव रखा गया है।

क्रिप्टो के बाद एनएफटी पर हैकर्स की नजर

क्रिप्टोकॉरसी के बाद हैकर्स की नजर नॉन-फंजीबल टोकन (एनएफटी) पर पड़ने लगी है। बीते रविवार को कई सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि हैकर्स ने एनएफटी मार्केटप्लेस ओपनसी को हक कर लिया है। इसके बदले में हैकर्स में 200 मिलियन डॉलर की राशि वसूली है। हालांकि, ओपनसी के चीफ एक्जीक्यूटिव डेविन फ्रिजर ने इन दावों को खारिज किया है।



भारत के क्रिप्टो निवेशकों को नियमों का इंतजार एक फरवरी को एच आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टोकॉरसी समेत सभी प्रकार के डिजिटल असेट्स की बिक्री से होने वाली आय पर 30 फीसदी टैक्स लागू का प्रस्ताव रखा था।

क्रिप्टोकॉरसी में गिरावट

Table with 3 columns: क्रिप्टोकॉरसी, कीमत (₹ में), गिरावट (% में). Rows include बिटकॉइन, शिबा इन्, इथेरियम, डॉगकोइन, बीएनबी, मैटिक, ओकिडाओ, कारडानो, सोलाना, गाला.

बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने, एजेंटों पर निर्भरता घटाने के लिए कंपनी की योजना

एलआईसी का डिजिटल मंच देगा कड़ी टक्कर

तैयारी

नई दिल्ली | अनिरुद्ध लक्ष्कर

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) अलग डिजिटल वर्टिकल या डिजिटल प्लेटफॉर्म लाने की योजना बना रही है। आर्थिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के बाद बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने, एजेंटों पर निर्भरता कम करने, डिजिटलाइजेशन बढ़ाने और निवेशकों को लुभाने के मकसद से यह योजना बनाई जा रही है।



74.04% बाजार हिस्सेदारी थी एलआईसी की जून 2020 में 61.04% रह गई एलआईसी की हिस्सेदारी जनवरी 2022 में 90% नया कारोबार प्रीमियम एजेंटों से मिलता है

दौरान प्रीमियम के लिहाज से एलआईसी की बाजार हिस्सेदारी 68.05 फीसदी से गिरकर 61.4 फीसदी पर आ गई है। जून 2020 के 74.04 फीसदी के मुकाबले एलआईसी की बाजार हिस्सेदारी में 13 फीसदी की गिरावट आई है।

एजेंटों से मिलता है 90 फीसदी प्रीमियम: अप्रैल से दिसंबर 2021 के दौरान एलआईसी का नया कारोबार प्रीमियम आय 3.07 फीसदी गिरकर 1.26 लाख करोड़ रुपए रही है। वहीं निजी क्षेत्र की कंपनियों का नया कारोबार प्रीमियम आय 29.8 फीसदी की बढ़त के साथ 79,216.84 करोड़ रुपए रही है।

आईपीओ में दूर रहेगा ईपीएफओ

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने एलआईसी को बड़ा झटका दिया है। ईपीएफओ ने एलआईसी के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) में निवेश से इंकार कर दिया है।

ईपीएफओ के निवेश का पारंपरिक तरीका

पारंपरिक तरीके के अनुसार, ईपीएफओ को 50 फीसदी में से 45 फीसदी राशि डेट इंस्ट्रूमेंट में और पांच फीसदी राशि छोटी अवधि के डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश की जाती है।

तीसरी तिमाही में वृद्धि दर 6.6% रहेगी

गुंबई | एजेंसी

विदेशी ब्रोकरेज कंपनी बार्कलेज ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिये भारत की आर्थिक वृद्धि दर 10 प्रतिशत रहने के पहले के अनुमान को कम कर दिया है।

की तीसरी तिमाही में 6.6 प्रतिशत रह सकती है। बार्कलेज के अनुसार, तीसरी तिमाही में कई क्षेत्रों में कामकाज महामारी-पूर्व स्तर पर आ गया है।

पेट्रोल-डीजल हो सकते हैं महंगे

नई दिल्ली। यूक्रेन पर रूस की सैन्य कार्रवाई शुरू होने के साथ ही मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम 100 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच चुके हैं।

यूक्रेन संकट, महंगा तेल चुनौती

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि रूस-यूक्रेन संकट और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी भारत में वित्तीय स्थिरता के लिये चुनौती है।



यूक्रेन में विकसित हो रहे हालात के लिये राजनयिक समाधान को लेकर आवाज उठाया है, ये सभी चुनौतियां हैं और बाजार में नुकसान हो सकता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुआई वाली वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (एफएसडीसी) ने मंगलवार को वैश्विक एवं परफ्यू घटनाक्रम से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा करने के साथ ही नियामकों से हालात पर करीबी नजर बनाए रखने को कहा।

बिना मंजूरी वाले प्रीपेड वॉलेट से न करें लेनदेन

अलर्ट

गुंबई | एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आम जनता को आगाह किया है कि वे बिना मंजूरी वाले प्रीपेड वॉलेट के जरिए लेनदेन ना करें।



आयकर विभाग ने किया सावधान 2 आयकर विभाग ने आम जनता को नौकरियों की फर्जी पेशकश करने वालों से सतर्क किया है।

सेंसेक्स 383 अंक लुढ़का

गुंबई | एजेंसी

शुरुआती कारोबार में तीस शेरों पर आधारित संसेक्स करीब 1,300 अंक लुढ़क गया था। बाद में इसमें तेजी से सुधार आया।

नहीं पड़ा है लेकिन सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है। वित्त मंत्री ने एलआईसी के आर्थिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के लिए समयसीमा पर सवालों को टाल दिया।

2026 तक स्मार्टफोन की संख्या बढ़ेगी

नई दिल्ली | एजेंसी

भारत में वर्ष 2026 तक स्मार्टफोन के एक अरब उपयोगकर्ता होंगे। डेलॉयट की मंगलवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट सुविधा से लैस मोबाइल फोन की बिक्री में वृद्धि से स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ेगी।

रिपोर्ट 2 इंटरनेट सुविधा वाले मोबाइल की बिक्री से उपयोगकर्ता बढ़ेंगे 2021 तक देश में 75 करोड़ स्मार्टफोन उपयोगकर्ता थे फोन के 1.2 अरब उपयोगकर्ता थे। इसमें से 75 करोड़ स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। डेलॉयट के 2022

ग्लोबल टीएमटी (प्रौद्योगिकी, मीडिया और मनोरंजन, दूरसंचार) अनुमान के अनुसार, घरेलू बाजार में 2026 तक स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या बढ़कर एक अरब पर पहुंचने का अनुमान है।

Advertisement for 'कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अधिनियमा (पी) 4 दिल्ली जल बोर्ड' with details on recruitment and contact information.

बिजनेस आपतक

विस्तार कर्मचारी संख्या में इजाफा करेगी

नई दिल्ली। विस्तार एयरलाइन की इस साल के अंत तक अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर 5,000 करने की योजना है।

कृषिफाई ने निवेशकों से 35 लाख डॉलर जुटाए

नई दिल्ली। स्टार्टअप कृषिफाई ने करोड़ों बढ़ाने के लिए निवेशकों से 35 लाख डॉलर जुटाए हैं। पिछले साल अगस्त में कंपनी ने ओमिडियार नेटवर्क इंडिया, अंकुर कैपिटल और ओरियोस वेंचर्स से 27 लाख डॉलर जुटाए थे।

सोना में 552 और चांदी में 1,012 रुपये की तेजी

नई दिल्ली। वैश्विक बाजारों में तेजी के रुख और रुपये के मूल्य में गिरावट के बीच मंगलवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 552 रुपये चढ़कर 50,518 रुपये प्रति 10 ग्राम की ऊंचाई पर पहुंच गया।

Advertisement for HT MEDIA LIMITED with corporate details and contact information.

HT Media Limited, a public listed company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 on 3rd December 2002 bearing corporate identification number of L22121DL2002PLC117874 having its registered office at 18-20 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi - 110001.

APPLICANT COMPANY 1/TRANSFEROR COMPANY 1/COMPANY OF DIGICONTENT LIMITED NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT BY AN ORDER DATED FEBRUARY 03, 2022 READ WITH ORDER DATED DECEMBER 22, 2021 ("ORDERS"), THE HON'BLE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, NEW DELHI BENCH ("TRIBUNAL") OR "NCLT") HAS DIRECTED TO CONVOKE A MEETING OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY TO BE HELD, FOR THE PURPOSE OF CONSIDERING, AND IF THOUGHT FIT, THE COMPOSITE SCHEME OF AMALGAMATION ("SCHEME") OF DIGICONTENT LIMITED ("TRANSFEROR COMPANY 1"), NEXT MEDIAWORKS LIMITED ("TRANSFEROR COMPANY 2") AND HT MOBILE SOLUTIONS LIMITED ("TRANSFEROR COMPANY 3") WITH HT MEDIA LIMITED ("TRANSFEREE COMPANY")...

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT BY AN ORDER DATED FEBRUARY 03, 2022 READ WITH ORDER DATED DECEMBER 22, 2021 ("ORDERS"), THE HON'BLE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, NEW DELHI BENCH ("TRIBUNAL") OR "NCLT") HAS DIRECTED TO CONVOKE A MEETING OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY TO BE HELD, FOR THE PURPOSE OF CONSIDERING, AND IF THOUGHT FIT, THE COMPOSITE SCHEME OF AMALGAMATION ("SCHEME") OF DIGICONTENT LIMITED ("TRANSFEROR COMPANY 1"), NEXT MEDIAWORKS LIMITED ("TRANSFEROR COMPANY 2") AND HT MOBILE SOLUTIONS LIMITED ("TRANSFEROR COMPANY 3") WITH HT MEDIA LIMITED ("TRANSFEREE COMPANY")...

Table with 4 columns: S. No., Class of Meeting, Time (IST), Date of Meeting. Rows include Unsecured Creditors, Secured Creditors, Equity Shareholders.

The Company has provided facility of voting by remote electronic voting ("Remote e-voting") and e-voting during the aforesaid meetings ("Insta Poll") using facility offered by KFin Technologies Private Limited ("KFIN"), Registrar and Share Transfer Agent of the Applicant Company 3, so as to enable the equity shareholders, secured creditors and unsecured creditors to cast their votes on the resolution, proposed to be passed at their respective meetings. The notice, together with the documents accompanying the same, of the aforesaid meetings has been sent on as mentioned below:

Table with 3 columns: Particulars, Equity Shareholders meeting, Secured Creditors and Unsecured Creditors meeting. Rows include Cut-off date, Remote e-voting start date and time, Remote e-voting end date and time.

Members / Creditors who opt for remote e-voting will only be entitled to attend and participate in the meetings but will not be entitled to vote again during the meetings. Members, who have not registered their e-mail address, are requested to register the same, in respect of shares held in demat form with their Depository Participant(s), and in respect of shares held in physical form by clicking on https://ris.kfintech.com/client/services/mobileapp/mobilemailing.aspx or by writing to KFin with details of folio number and self-attested copy of PAN card at KFin Technologies Private Limited, Unit: Digicontent Limited, Stelenum Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda Serilingampally Mandal, Hyderabad-500 032 or by sending e-mail to sinward.ris@kfintech.com